



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 31, 2011—जनवरी 6, 2012 (पौष 10, 1933)
No. 53] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 31, 2011—JANUARY 6, 2012 (PAUSA 10, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *	
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *	
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... *	
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	4077
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम..... *	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस..... *	
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ..... *	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... *	
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट..... *	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	6315
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)..... *	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	1407
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक..... *	

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1645	Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1273	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	19	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	2295	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	4077
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	6315
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1407
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the -Ministries of the Government of India (other than the		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वस्त्र मंत्रालय

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय

नई दिल्ली-110066, दिनांक 8 दिसम्बर 2011

संकल्प

सं. के-12012/5/4/2011-यो. एवं अनु./एआईएचबी--इस कार्यालय के दिनांक 17 फरवरी, 2011 के संकल्प संख्या के-12012/5/1/2011-यो. एवं अनु./एआईएचबी का अतिक्रमण करते हुए भारत सरकार ने वर्तमान संकल्प की तारीख से अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड का पुनर्गठन किया है। बोर्ड का कार्यकाल इस संकल्प की तारीख से अर्थात् 08 दिसम्बर, 2011 से 2 वर्ष की अवधि के लिए होगा।

अध्यक्ष

1. वस्त्र मंत्री
भारत सरकार
उद्योग भवन, नई दिल्ली

सह-अध्यक्ष

2. वस्त्र राज्य मंत्री
वस्त्र मंत्रालय
भारत सरकार
उद्योग भवन, नई दिल्ली

उपाध्यक्ष

3. सचिव
वस्त्र मंत्रालय
भारत सरकार
उद्योग भवन, नई दिल्ली

सरकारी सदस्य

4. सचिव
लघु उद्योग एवं कृषि ग्रामीण उद्योग
भारत सरकार
उद्योग भवन, नई दिल्ली
5. सचिव (ग्रामीण विकास)
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली

6. अपर सचिव एवं वित्त सचिव
वस्त्र मंत्रालय
भारत सरकार
उद्योग भवन, नई दिल्ली

7. सलाहकार (वीएसआई), योजना आयोग
भारत सरकार
योजना भवन
संसद मार्ग, नई दिल्ली

8. प्रबन्ध निदेशक
ट्राइफेड, द्वितीय तल, एनसीयूआई बिल्डिंग,
3-सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया
अगस्त क्रांति मार्ग
हौज खास, नई दिल्ली-110016

9. सचिव, (लघु उद्योग)
हस्तशिल्प प्रभारी
उत्तर प्रदेश सरकार
राज्य सचिवालय, लखनऊ-226201

10. सचिव, (कुटीर एवं लघु उद्योग)
हस्तशिल्प प्रभारी
पश्चिमी बंगाल सरकार
(कुटीर एवं लघु उद्योग)
राइटर्स बिल्डिंग, कोलकाता (प. बं.)-700001

11. सचिव, हस्तशिल्प प्रभारी
राजस्थान सरकार
सचिवालय, जयपुर

12. सचिव, हस्तशिल्प प्रभारी
बिहार सरकार
सचिवालय, पटना

13. सचिव, हस्तशिल्प प्रभारी
उड़ीसा सरकार
सचिवालय, भुवनेश्वर

सांस्थानिक सदस्य

14. अध्यक्ष
शिल्प संग्रहालय
भैरों रोड के सामने, प्रगति मैदान
नई दिल्ली

15. अध्यक्ष
खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग
“ग्रामोदय”
3 इरला रोड, विले पार्ले (पश्चिमी)
महाराष्ट्र, मुंबई-400056
 16. निदेशक
राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान
पालदी, अहमदाबाद-380007
 17. महा निदेशक
राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान
निफ्ट कैम्पस, हौज खास
गुलमोहर पार्क के पास
नई दिल्ली-110016
 18. प्रबन्ध निदेशक
केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लि.
जवाहर व्यापार भवन, जनपथ
नई दिल्ली-110001
 19. प्रबन्ध निदेशक, नाबार्ड
प्लॉट नं. सी-24, जी ब्लॉक
बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लैक्स
पोस्ट बॉक्स सं. 8121 बान्द्रा (पूर्वी)
मुंबई-400051
 20. प्रबन्ध निदेशक, सिडबी
सिडबी टावर 15, अशोक मार्ग
लखनऊ-226001
 21. अध्यक्ष
कालीन निर्यात संवर्धन परिषद्
निर्यात भवन, तीसरी मंजिल
राव तुला राम मार्ग
आर्मी आर आर अस्पताल के सामने
नई दिल्ली
 22. निदेशक
भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई सीटी)
चौड़ी रोड
भदोही (उत्तर प्रदेश)
 23. अध्यक्ष, दि ब्रास आर्टवेयर मैनुफैक्चर्स
(निर्यातक) संघ
जय मंदिर बिल्डिंग
कोतवाली के सामने
मुरादाबाद-244001
 24. कार्यकारी निदेशक
हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद्
ई पी सी एच हाउस, पॉकेट 6 एवं 7
सेक्टर-सी, एल एस सी, वसंत कुंज
नई दिल्ली
 25. अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक
तमिलनाडु हस्तशिल्प विकास निगम लि.
759, अन्ना सलाई
चैन्नई-600002
 26. प्रबन्ध निदेशक
पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि.
अपर लेकूमियरे
शिलांग-793001
 27. प्रबन्ध निदेशक,
जम्मू एवं कश्मीर हस्तशिल्प विकास निगम लि.,
एम्पोरियम बिल्डिंग
श्रीनगर-190001
 28. प्रबन्ध निदेशक,
आन्ध्र प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम लि.,
हस्तकला भवन,
टेलीफोन एक्सचेंज के सामने
मुशीराबाद, हैदराबाद-500020
 29. अध्यक्ष
वर्ल्ड क्राफ्ट काउन्सिल
औरस कॉरपोरेट सेन्टर
तीसरा तल, 98 ए. डा. राधाकृष्णन सलाई
चैन्नई-600004
- गैर सरकारी सदस्य
30. श्री कत्तला रघुपति रेड्डी
म. नं. 6-50/2, चांदनगर
सेरीलिंगमपल्ली, जीएचएमसी, आन्ध्र प्रदेश
 31. श्री एन. अशोक रेड्डी, गांव एवं पोस्ट ऑफिस
पंजुगुला, कलवाकुर्थी
जिला महबूबनगर, आन्ध्र प्रदेश
 32. मो. इरशाद अली
वार्ड नं. 11, के. बी. रोड
हीरा हाऊस के पास
पोस्ट ऑफिस उत्तरी लखीमपुर
जिला लखीमपुर, असम
 33. श्री गुणाराम ताये
गांव-रतनपुर
पोस्ट ऑफिस धीमाजी, पु. स्टे. धीमाजी
जिला धीमाजी, असम
 34. श्री पांचु राम सागर
पुत्र स्व. भोंदूराम सागर
कृष्णा राइस मिल के पास
अस्पताल वार्ड, कोण्डागांव
जिला बस्तर, मध्य प्रदेश

35. श्री सोनधर विश्वकर्मा
गांव कुसमा, पोस्ट ऑफिस बरमानी
कोण्डागांव, जिला बस्तर
मध्य प्रदेश
36. श्रीमती जयश्री पोद्दार
2/1, मिडफोर्ड गार्डन, एम. जी. रोड
बंगलौर-560001
37. श्रीमती विसालाक्षी रामास्वामी
70, एम. आर. सी. नगर, मेन रोड
चेन्नई-600028
38. श्री शैलेन्द्र चौधरी
जगतपुर, बुराड़ी
दिल्ली-110009
39. श्री अमर नाथ जिन्दल
19/26, ईस्ट एवेन्यू रोड
ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026
40. श्री प्रेम प्रकाश सचदेव
सं. 22, प्रकाश नगर
तहसील कैम्प, पानीपत
41. श्री बामन देव ठाकुर
द्वारा पारा, गांव एवं पोस्ट ऑफिस-द्रहाल
तहसील-जोगिन्द्र नगर
जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश
42. श्री मुजफ्फर अहमद देव
ए 2/38, तीसरी मंजिल
सफदरजंग एन्कलेव
झण्डू सिंह मार्ग
नई दिल्ली-110029
43. श्री मेहराजुद्दीन अहमद
254, हकीम महमूदुल हक रोड
लिसारी गेट, मेरठ
उत्तर प्रदेश-250002
44. श्री सय्यद के. थंगाई
18/ए, शिफा मंजिल, 581325
जिला उत्तर कन्नड
कर्नाटक
45. श्री थम्पनूर रवि
जयलक्ष्मी, कोचर रोड
पोस्ट ऑफिस सस्थामंगलम
त्रिवेन्द्रम
46. श्री विन्सेन्ट कट्टोकरन
कट्टोकरन हाऊस
अरनाटुकारा त्रिचूर, केरल
47. श्री नवीन दूबे
11, जवाहर मार्ग, शाजापुर
मध्य प्रदेश
48. श्री लक्ष्मीनारायण धाकड़
गांव-मरोड़ा, (खालसा)
पोस्ट ऑफिस, दुल्हारा
तहसील-मुहारी
जिला-शिवपुरी, मध्य प्रदेश
49. श्री जगदीश सैनी, 967,
कमला नेहरू नगर, टेलिग्राफ,
गेट नं. 4, जबलपुर-482002, मध्य प्रदेश
50. श्रीमती भारती एन. भुट
राम मंदिर रोड, गोरे गांव (पश्चिम), मुंबई
महाराष्ट्र
51. श्री शंकर हनुमंत शांति
रोड नं. ए-2132/4, सुभाष नगर, धारवी,
मुम्बई, महाराष्ट्र
52. श्रीमती वरिन्द्र कौर घुम्नन
1-सी, बराड़ स्ट्रीट,
हीरा नगर, 22 नं. फाटक के पास
पटियाला
53. श्री लेखराज महेश्वरी
140, बसन्त बहार कालोनी
टोंक रोड, जयपुर-302018, राजस्थान
54. श्री बदरीलाल चित्रकार
ए-142, पंचवट्टी
हनी महादेव रोड
भीलवाड़ा-311001, राजस्थान
फोन : 09414111882
55. श्री लक्ष्मीलाल कुम्हार
गांव मोलेला (कुम्हारवाड़ा)
तहसील नाथद्वारा,
जिला राजसमंद
राजस्थान-313322
56. श्री महावीर कुमार जैन
सी-152, श्री कृष्ण मंदिर के सामने
शास्त्री नगर, जोधपुर,
राजस्थान
57. डॉ. ज्योतिस्वरूप शर्मा
9/779, चोपासनी हाउसिंग बोर्ड
जोधपुर, राजस्थान
58. श्री जी. सरवन बहावन
सुपुत्र ए. गणेशन
4/525, कुरीजी नगर
थिरुनगर, मदुरई-6

59. श्री के. बाला सुब्रामणियम
सुपुत्र कानापथई पल्लई
659/39, कमाजार स्ट्रीट,
लक्ष्मीनगर, मदुरई रोड
विरुदुनगर-626001

60. श्रीमती नूतन बाजपेयी
165-न्यू हैदराबाद
लखनऊ, उत्तर प्रदेश फोन : 09839080841

61. श्री संकर मालाकार
बापूपारा, श्री मां सारनी
पोस्ट ऑफिस सिलीगुड़ी टाउन
जिला दार्जिलिंग-734004

सदस्य सचिव

62. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)
विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय
पश्चिमी खण्ड-7
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली

उपरोक्त सदस्यों का कार्यकाल बोर्ड के कार्यकाल के सहवर्ती अर्थात्
08 दिसम्बर, 2011 से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

बोर्ड सामाजार्थिक सांस्कृतिक एवं कलात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हस्तशिल्प क्षेत्र में समग्र रूप में विकास कार्यक्रम तैयार करने में सरकार को सलाह देगा। बोर्ड विशेषकर निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में सरकार को सलाह देगा :—

1. हस्तशिल्प क्षेत्र को बेरोजगारी दूर करने और अल्प-रोजगार की स्थिति में सुधार करने के लिए तथा हस्तशिल्प कारीगरों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में तैयार करना।
2. हस्तशिल्प क्षेत्र में समग्र विकास के कार्यक्रमों को तैयार करने में सरकार को सलाह देना।
3. हमारे हस्तशिल्पों की शिल्प विरासत का परिरक्षण एवं संवर्धन करना।
4. देश विदेश में हस्तशिल्पों के बाजार का विस्तार करने के लिए कार्यनीतियां तैयार करने में सरकार को परामर्श देना।
5. इस क्षेत्र में विभिन्न सरकारी एजेंसियों के विकास संबंधी प्रयासों के प्रभावी समन्वयन के लिए कदम उठाना।
6. समय-समय पर विकास की प्रगति की समीक्षा करना।

यह माननीय वस्त्र मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

एस. एस. गुप्ता
विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)

MINISTRY OF TEXTILES
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(HANDICRAFTS)

New Delhi-110066, the 8th December 2011

RESOLUTION

No. K-12012/5/4/2011-P&R/AIHB—In supersession of this office Resolution No. K-12012/5/1/2011-P&R/AIHB 17th February 2011, the Government of India has reconstituted All India Handicrafts Board with effect from the date of the present Resolution. The term of Office of the Board will be for a period of two years from the date of this Resolution i.e. 8th December, 2011.

CHAIRMAN

1. Minister of Textiles
Government of India
Udyog Bhawan, New Delhi.

CO-CHAIRPERSON

2. Minister of State for Textiles
Ministry of Textiles
Government of India
Udyog Bhawan, New Delhi.

VICE CHAIR-PERSON

3. Secretary
Ministry of Textiles
Government of India
Udyog Bhawan, New Delhi.

OFFICIAL MEMBERS

4. Secretary,
Small Scale & Agro Rural Industries,
Government of India
Udyog Bhawan, New Delhi
5. Secretary (Rural Development),
Government of India,
Krishi Bhawan, New Delhi.
6. Additional Secretary & Financial
Secretary,
Ministry of Textiles
Government of India
Udyog Bhawan, New Delhi.
7. Advisor (VSI), Planning Commission,
Government of India,
Yojana Bhawan, Parliament Street,
New Delhi.

8. Managing Director,
TRIFED
2nd Floor, NCUI Building,
3-Siri, Institutional Area
August Kranti Marg, Hauz Khas
New Delhi-110016.

9. Secretary (Small Scale Industry)
In-charge of Handicrafts, Govt. of U.P.
State Secretariat, Lucknow-226001
10. Secretary (Cottage & Small Scale
Industries) In-charge of Handicrafts,
Govt. of West Bengal (Cottage & Small
Scale Industries) Writers Building
Kolkatta (W.B.)-700001
11. Secretary In-charge of Handicrafts,
Govt. of Rajasthan
Secretariat, Jaipur
12. Secretary-in-Charge of Handicrafts,
Govt. of Bihar,
Secretariat, Patna
13. Secretary-in-Charge of Handicrafts,
Government of Orissa,
Secretariat, Bhubneshwar

INSTITUTIONAL MEMBERS

14. Chairperson,
Crafts Museum, Opposite Bhairon Road,
Pragati Maidan, New Delhi.
15. Chairman,
Khadi & Village Industries
Commission, "Gramodaya",
3 Irla Road, Vile Parle (West),
Maharashtra, Mumbai-400056.
16. Director,
National Institute of Design,
Paldi, Ahmedabad-380007.
17. Director General,
National Institute of Fashion Technology,
NIFT Campus, Hauz Khas,
Near Gulmohar Park,
New Delhi-110016.
18. Managing Director,
Central Cottage Industries
Corporation Ltd, Jawahar Vyapar
Bhavan, Janpath,
New Delhi-110001 (India).

19. Managing Director, NABARD
Plot No. C-24, G Block
Bandra Kurla Complex,
P.B. No. 8121, Bandra-(East)
Mumbai-400051.
20. Managing Director, SIDBI
SIDBI Tower 15, Ashok Marg
Lucknow-226001.
21. Chairman,
Carpet Export Promotion Council,
Niryat Bhawan, 3rd Floor,
Rao Tula Ram Marg, Opp. Army
R. R. Hospital, New Delhi.
22. Director,
Indian Institute of Carpet
Technology (IICT),
Chauri Road,
Bhadohi, (Uttar Pradesh).
23. President, The Brass Artware
Manufacturers (Exporters)
Association, Jai Mandir Building,
Opp. Kohtwali,
Moradabad-244001.
24. Executive Director, Export
Promotion Council for Handicrafts,
EPCH House, Pocket 6 & 7,
Sector-C, LSC, Vasant Kunj,
New Delhi.
25. Chairman-cum-Managing
Director, Tamilnadu Handicrafts
Dev. Corpn. Ltd., 759, Anna Salai,
Chennai-600002.
26. Managing Director, North Eastern
Handicrafts & Handloom
Development Corporation Ltd.,
Uppere Lacumiere, Shillong-793001.
27. Managing Director, J&K Handicrafts
Development Corporation Ltd.,
Emporium Building,
Srinagar-190001.
28. Managing Director, A. P. Handicrafts
Development Corporation Ltd.,
Hastakala Bhawan,
Opp. Telephone Exchange, Musheerabad,
Hyderabad-500020.
29. Chairperson,
World Craft Council,
AURAS Corporate Centre,
3rd Floor, 98 A
Dr. Radhakrishnan Salai,
Chennai-600004.

NON-OFFICIAL MEMBERS

30. Shri Kattla Raghupathi Reddy
H. No. 6-50/2, Chandangar
Serilingampally, GHMC, A.P.
31. Shri N. Ashok Reddy, Vill. & P.O.
Panjugula, Kalwakurthy,
Distt. Mahabubnagar, A.P.
32. Md. Irsad Ali,
Ward No. 11, K. B. Road,
Near Hira House,
P.O. North Lakhimpur,
Distt. Lakhimpur, Assam.
33. Shri Gunaram Taye,
Village-Ratanpur
P.O. Dhemaji, P.S. Dhemaji,
Distt. Dhemaji, Assam.
34. Shri Panchu Ram Sagar,
S/o Late Bhonduram Sagar,
Near Krishna Rice Mill,
Hospital Ward, Kondagaon
Distt. Bastar, Madhya Pradesh.
35. Shri Sonadhar Vishwakarma,
Village Kusama, P.O. Barmani,
Kondagaon, Distt. Bastar,
Madhya Pradesh.
36. Smt. Jayshree Poddar,
2/1, Midford Garden, M.G Road,
Bangalore-560001.
37. Smt. Visalakshi Ramaswamy
70, M. R. C. Nagar, Main Road
Chennai-600028.
38. Shri Shailendra Choudhary,
Jagatpur, Burari,
Delhi-110009.
39. Shri Amar Nath Jindal,
19/26, East Avenue Road
East Punjabi Bagh, New Delhi-110026.
40. Shri Prem Parkash Sachdeva,
No. 22, Parkash Nagar,
Tehsil Camp, Panipat.
41. Shri Baman Dev Thakur,
C/o Para, Vill. & P.O. Drahal
Tehsil-Joginder Nagar,
Distt. Mandi, H.P.
42. Shri Muzaffar Ahmed Dev,
A2/38, 3rd Floor
Safdarjung Enclave
Jhandu Singh Marg
New Delhi-29.

43. Shri Mehrajuddin Ahmed,
254, Hakim Mahmoodul Haq Road,
Lisari Gate, Meerut,
Uttar Pradesh-250002.
44. Shri Sayed K. Thangai,
18/A, Shifa Manzil, 581325
Uttara Kannada Distt.,
Karnataka.
45. Shri Thampanoor Ravi,
Jayalshmi Kochar Road
Sasthamanglam P.O.
Trivendrum.
46. Shri Vincent Kattokaran,
Kattokaran House
Aranattukkara Thirur, Kerala.
47. Shri Naveen Dube,
11, Jawahar Marg, Shajapur,
Madhya Pradesh.
48. Shri Laxminarayan Dhakad,
Village-Marora, (Khalsa)
P.O. Dulhara Tehsil-Mohari
Distt. Shivpuri, Madhya Pradesh
49. Shri Jagdish Saini, 967,
Kamla Nehru Nagar, Telegraph,
Gate No. 4, Jabalpur-482002, M.P.
50. Mrs. Bharati N. Bhuta
Ram Mandir Road, Goregaon (W), Mumbai,
Maharashtra.
51. Mr. Shanar Hanumant Santi,
R. No. A-2132/4, Subhase Nagar, Dharavi,
Mumbai, Maharashtra.
52. Mrs. Varinder Kaur Ghuman,
I-C Brar Street, Hira Nagar
Near 22 No Phatak
Patiala
53. Shri Lekhraj Maheshwari,
140, Basant Bahar Colony
Tonk Road, Jaipur-302018, Rajasthan.
54. Shri Badrilal Chitrakar,
A-142, Panchwati
Harni Mahadeo Road
Bhilwara-311001, Rajasthan
Phone : 09414111882.
55. Shri Laxmilal Kumhar,
Vill. Molela (Kumharwara)
Tehsil Nathdwara, Distt. Rajsmand,
Rajasthan-313322.
56. Shri Mahaveer Kumar Jain,
C-152, Opposite : Shri Krishna Mandir,
Shastri Nagar,
Jodhpur, Rajasthan.
57. Dr. Jyoti Swaroop Sharma,
9/779, Chopasni Housing Board,
Jodhpur, Rajasthan.
58. Shri G. Saravana Bahavan
S/o A. Ganesan,
4/525, Kuriji Nagar,
Thirunagar, Madurai-6.
59. Shri K. Balasubramanian,
S/o Kanapathyapillai,
659/39, Kamajar Street,
Lakshmi Nagar, Madurai Road,
Virudhunagar-626001.
60. Mrs. Nutan Vajpayee,
165-New Hyderabad
Lucknow, U.P.
Phone : 09839080841.
- 61- Shri Sankar Malakar,
Bbu Para, Sree Maa Sarani,
P.O. Siliguri Town,
Distt. Darjeeling-734004.

MEMBER SECRETARY

62. DC (HANDICRAFTS)
Office of the DC (Handicrafts)
West Block No. 7,
R. K. Puram, New Delhi.

The term of Office of the above members will be concurrent with the term of Board i.e a period of two years from 8th December, 2011.

The Board will advise the Government in formulation of the overall Development Programmes in Handicrafts Sector, keeping in view socio-Economic cultural and artistic perspective. In particular, the Board will advise the Government regarding achievement of the following objectives :

1. To make handicrafts sector an effective instrument of reducing unemployment and under-employment and achieving higher standard of living for Handicrafts artisans.
2. To advise the Government in the formulation of the overall development programmes in the handicrafts sector.
3. To preserve and promote the craft heritage of our handicrafts.

4. To advise the Government in evolving strategies for expanding markets for handicrafts in the country and abroad.

This issues with the approval of the Hon'ble Minister of Textiles.

ORDER

5. To take steps for effective coordination of the development efforts of various Government agencies in the sector.

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

6. To review the progress of development from time to time.

S. S. GUPTA
Development Commissioner (Handicrafts)